



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2003 (चैत्र 8, 1925)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2003 (CHAITRA 8, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 27 फरवरी 2003

सं० आईबीएस/1469/23.13.034/2002-03—  
बैंककारी विनियमन, 1942 की धारा 36 (क) को उप-धारा (2) के अनुसूचन में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि दि सीओम कमिशन बैंक, पी०सी०एल० उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है।

के०एल० खेरपात, कार्यपालक निदेशक

सं० आईबीएस/1470/23.13.034/2002-03—  
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसूचन में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूचों से निम्नांकित को हटा दिया जाये :  
"दि सीओम कमिशन बैंक, पी०सी०एल०"

के०एल० खेरपात, कार्यपालक निदेशक

1-519 GI/2003

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय (उड़ीसा)

भुवनेश्वर-22, दिनांक 25 जनवरी 2003

सं० 44-बी-34/12/22/82-हि०—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-क के अंतर्गत जिला खुर्दा में भुवनेश्वर क्षेत्र को स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के प्रभावी होगी :—

अध्यक्ष

1. विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत  
उप जिलाधिकारी, भुवनेश्वर

सदस्य

2. विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत  
जिला श्रम अधिकारी, खुर्दा, भुवनेश्वर

3. विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत  
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी  
क०रा०बी० औषधानालय, खुर्दा, भुवनेश्वर

(3313)

4. विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत  
नियोजकों के प्रतिनिधि

- (i) श्री एस० के० महापात्र, महाप्रबंधक, होटल मेफेयर  
लगून, भुवनेश्वर
- (ii) श्री एस० के० महुंटा, प्रबंधक (कामिक) सबबॉन  
इन्डस्ट्रीज लि०, चन्द्रका इन्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स,  
भुवनेश्वर
- (iii) श्री सी० बी० पद्मराजन, कार्यकारी निदेशक  
मैगनम पॉलीमर्स (प्रा०) लि०, मन्चेस्वर  
इण्डस्ट्रियल इस्टेट, भुवनेश्वर

5. विनियम 10-क(1)(ङ) के अंतर्गत  
कर्मचारियों के प्रतिनिधि

- (i) श्री नरसिंहराव महान्ति, अध्यक्ष, राजधानी परिवहन  
कर्मचारी संघ, 32, अशोकनगर, भुवनेश्वर
- (ii) श्री वांकनिधि पांडे, महासचिव भारतीय मजदूर  
संघ, प्लॉट नं० 218/ए, मन्चेस्वर इण्डस्ट्रियल  
इस्टेट, भुवनेश्वर
- (iii) श्री विक्रम नायक, महासचिव, राजधानी होटल  
कर्मचारी संघ, 32, अशोकनगर, भुवनेश्वर  
सदस्य एवं सचिव (पदेन)

6. विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत  
प्रबंधक स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम, भुवनेश्वर  
एम० रामाराव, क्षेत्रीय निदेशक

सं० 44-बी-34/12/23/83-हित०—यह एतद्वारा अधि-  
सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य)  
विनियम 1950 के विनियम 19-क के अंतर्गत जिला कटक में  
जगतपुर क्षेत्र का स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया  
है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधि-  
सूचना के जारी होने की तारीख के प्रभावी होगी :—

अध्यक्ष

1. विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत  
सदस्य
2. विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत  
जिला श्रम अधिकारी, कटक

3. विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत  
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी  
क० रा० बी० औषधालय, जगतपुर

4. विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत  
नियोजकों के प्रतिनिधि

- (i) श्री ए० के० कानुनगो, प्रबन्ध निदेशक  
मेसर्स कलिंग पैकर्स (प्रा०) लि०  
न्मु इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जगतपुर, कटक
- (ii) श्री विश्वजीत महान्ति, कामिक अधिकारी,  
मेसर्स कलिंग पैकर्स (प्रा०) लि०  
न्मु इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जगतपुर, कटक
- (iii) श्री जगेश कुमार महान्ति, प्रबंधक निदेशक  
मेसर्स उड़ीसा कनफेक्शनरी (प्रा०) लि०  
न्मु इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जगतपुर, कटक

5. विनियम 10-क(1)(ङ) के अंतर्गत  
कर्मचारियों के प्रतिनिधि

- (i) श्री सुरेन्द्र नाथ विश्रवाल, महासचिव  
जगतपुर इण्डस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन  
गौशाला रोड, कटक
- (ii) श्री संतोष कुमार दास, ऑपरेटर  
मेसर्स कलिंग पैकर्स (प्रा०) लि०  
जगतपुर, कटक
- (iii) श्री विजय गन्तायत, ऑपरेटर  
मेसर्स कलिंग पैकर्स (प्रा०) लि०  
जगतपुर, कटक  
सदस्य सचिव (पदेन)

6. विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत  
प्रबंधक स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम,  
कल्याणीनगर, कटक

एम० रामाराव, क्षेत्रीय निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA  
CENTRAL OFFICE  
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND  
DEVELOPMENT)

Mumbai-400005, the 27th February 2003

No. IBS. 1469/23. 13. 034/2002-03—In pursuance  
of sub section (2) of Section 36 (A) of the Banking  
Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India  
hereby notifies that the Siam Commercial Bank  
P. C. L. has ceased to be a banking company  
within the meaning of the said Act.

K. L. Khetarpaul, Executive Director

No. IBS. 1470/23. 13. 034/2002-03—In pursuance  
of clause (b) of sub-Section (6) of Section 42 of the  
Reserve Bank of India Act. 1934 (2 of 1934), the  
Reserve Bank of India hereby directs the exclusion  
from the Second Schedule to the said Act of the  
following.

“The Siam Commercial Bank P. C. L.”

K. L. Khetarpaul, Executive Director

# EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Regional Office : Orissa

Bhubaneswar-22, the 25th January 2003

No. 44-V-34/12/22/82-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Bhubaneswar Area in the district of Khurda set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (Genl.) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

## Chairman

1. Under Reg. 10-A (1)(a)  
Sub-Collector, Bhubaneswar.

## Members

2. Under Reg. 10-A (1)(b)  
District Labour Officer, Khurda, Bhubaneswar.
3. Under Reg. 10-A (1)(c)  
I.M.O. I/c of the E.S.I. Dispensary, Bhubaneswar.
4. Under Reg. 10-A(1)(d)  
Employers Representative.
  - (i) Sri S.K. Mohapatra, General Manager  
Hotel May Fair Lagoon, Bhubaneswar.
  - (ii) Sri S.K. Mohanta, Manager (Personnel)  
Saburban Industries Ltd., Chandaka  
Industrial Complex, Bhubaneswar.
  - (iii) Sri C.V. Padmarajan, Executive Director,  
Magnum Polymers (P) Ltd., Mancheswar  
Industrial Estate, Bhubaneswar.
5. Under Reg. 10-A(1)(e)  
Employees' Representatives
  - (i) Sri Nabakishore Mohanty, President  
Rajdhani Paribahan Karmchari Sangha,  
32, Ashok Nagar, Bhubaneswar.
  - (ii) Sri Bankauidhi Sahoo, General Secretary,  
Bharatiya Mazdoor Sangha,  
Plot No. 219/A, Mancheswar Industrial  
Estate, Bhubaneswar.
  - (iii) Sri Bikram Nayak, Genl. Secretry,  
Rajdhani Hotel Karmchari Sangha,  
32, Ashok Nagar, Bhubaneswar.
6. Under Regulation 10-A(1)(f)  
Manger, Local Office, E.S.I. Corporation,  
Bhubaneswar.

M. Rama Rao, Regional Director

No. 44-V-34/12/23/83-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Jagatpur Area in the district of Cuttack set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (Genl.) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

## Chairman

1. Under Reg. 10-A(1)(a)  
Sub-Collector, Cuttack.

## Members

2. Under Reg. 10-A(1)(b)  
District Labour Officer, Cuttack.
3. Under Reg. 10-A(1)(c)  
I.M.O. I/c of the E.S.I. Dispensary, Jagatpur.
4. Under Reg. 10-A(1)(d)  
Employers' Representative
  - (i) Sri A.K. Kanungo, Managing Director,  
M/s Kalinga Packers (P) Ltd.,  
New Industrial Estate, Jagatpur, Cuttack.
  - (ii) Sri Biswajit Mohanty, Personnel Officer,  
M/s Kalinga Packers (P) Ltd.,  
New Industrial Estate, Jagatpur, Cuttack.
  - (iii) Sri Jagesh Kumar Mohanty,  
Managing Director,  
M/s Orissa Confectionery (P) Ltd.,  
New Industrial Estate, Jagatpur, Cuttack.
5. Under Reg. 10-A(1)(e)  
Employees' Representatives
  - (i) Sri Surindra Nath Biswal,  
General Secretary,  
Jagatpur Industrial Workers Union,  
Gosala Road, Cuttak.
  - (ii) Sri Santosh Kumar Das, Operator,  
M/s Kalinga Packers (P) Ltd.,  
Jagatpur, Cuttak.
  - (iii) Sri Bijay Gantayat, Operator,  
M/s Kalinga Packers (P) Ltd.,  
Jagatpur, Cuttak.
6. Under Regulation 10-A(1)(f)  
Manager, Local Office, E.S.I. Corporation  
Kalyani Nagar, Cuttack.

## Member & Ex-Officio Secretary

M. Rama Rao, Regional Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI,